

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2016 (अग्रहायण 12, 1938)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2016 (AGRAHAYANA 12, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की
नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवंबर 2016

सं. ए. 12025/3/2009-प्रशा.-I(वि.वि.)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री बृजेश कुमार सिंह को उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) के पद पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल 12 (रु 78800—209200/—) (पूर्व संशोधित—रुपए 15600—39100/— के वेतन बैंड-3 और रुपए 7600/— के ग्रेड वेतन) में विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में दिनांक 8 नवंबर, 2016 की पूर्वह से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री बृजेश कुमार सिंह 8 नवंबर, 2016 से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2016

सं. ए-19011/16/2016-एचआर-II—राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 02.11.2016 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2016 के आदेश सं. 36/02/2016-ई.ओ. (एसएम-I) के अनुसरण में श्री गजेन्द्र भुजबल, आईईएस (1981), सेवानिवृत्त के स्थान पर सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, आईएएण्डएस (1984) को दिनांक 01.11.2016 (पूर्वा.) से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

पुम्जालाल पुलाम्ते, अवर सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 नवम्बर 2016

सं. 3-8/2010-आरटी—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्वी वन रेंजर्स महाविद्यालय, कुर्सियांग का नाम बदलकर केन्द्रीय वन शिक्षा अकादमी कुर्सियांग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सुनीश बक्शी, उप वन महानिरीक्षक (आरटी)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 नवम्बर 2016

सं. ए.12025/122/2010—सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० अमित कुमार को दिनांक 15 जून, 2011 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600—39100/- रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० अमित कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

डी. डी. महेश्वरी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 15 नवम्बर 2016

सं. ए. 12025/178/2014—सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. धनंजय सबत को दिनांक 01.01.2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हड्डी रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2016

सं. ए. 31012/02/2016-ई-I—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों (आयुर्वेद) को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से उन्हें सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	परिवीक्षावधि पूर्ण होने की तारीख	स्थायी होने की तारीख
1.	डॉ. मृत्युंजय प्रसाद तिवारी	04.11.2015	05.11.2015
2.	डॉ. नीरज कुमार गुप्ता	13.11.2015	14.11.2015
3.	डॉ. अस्मिता सिंह	06.11.2015	07.11.2015
4.	डॉ. पुष्पा राय	23.11.2015	24.11.2015
5.	डॉ. त्रिवेन्द्र कुमार शर्मा	13.11.2015	14.11.2015
6.	डॉ. विनीता टी वी	02.11.2015	03.11.2015
7.	डॉ. सीमा वर्मा	06.11.2015	07.11.2015

क्र.सं.	नाम	परिवीक्षावधि पूर्ण होने की तारीख	स्थायी होने की तारीख
8.	डॉ. प्रवीन कुमार धोते	21.05.2016	22.05.2016
9.	डॉ. बाबू लाल मीना	19.11.2015	20.11.2015
10.	डॉ. दिग्विजय सिंह	17.11.2015	18.11.2015
11.	डॉ. जीना एम एस	08.12.2015	09.12.2015
12.	डॉ. राकेश कुमार मीना	11.03.2016	12.03.2016
13.	डॉ. रणविजय सिंह	06.11.2015	07.11.2015
14.	डॉ. आशीष कुमार जायसवाल	11.12.2015	12.12.2015

यश वीर सिंह, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 नवंबर 2016

सं. ए-11011/3/2014-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26, अक्टूबर, 2016 के का.ज्ञा.सं. 33/13/2016-ईओ (एसएम-1) के द्वारा श्रीमती शारदा जी मुरलीधरन आई.ए.एस. (के.एल : 1990) को महानिदेशक, एनआईएफटी, वस्त्र विभाग में लैटरल आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 04 नवम्बर, 2016 पूर्वाह्न को पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद के प्रभार से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. के. मान, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 नवम्बर 2016

सं. ए-19039/1/2016-स्था.—राष्ट्रपति श्री सुरेन्द्र कुमार मान को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के का.ज्ञा.सं. 05/07/2016-सीएस.1(यू) के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय में पे बैंड (पीबी-3) 15600—39100/- + 6600/- के ग्रेड पे में 30 सितम्बर, 2016 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एन. पी. टोपो, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवंबर 2016

सं० ए-19011/01/2016-स्था.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, डॉ. विनोद अग्रवाल, आई.ए.एस. (झारखण्ड : 1980), सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 31.10.2016 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

प्रदीप पुरोहित, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 नवम्बर 2016

आदेश

विषय:—भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ग्रेड 'ए' (आईपी एंड टी एफएस ग्रेड 'ए') की प्रथम संवर्ग समीक्षा।

सं. 03-09/2015-एसईए-I—राष्ट्रपति आईपी एंड टी एफएस के विभिन्न ग्रेडों में निम्नांकित पदों के सुजन/कटौती को मंजूरी देते हैं:—

(क) शीर्ष स्तर पर संचार लेखा महा नियंत्रक (सीजीसीए) के पद का सृजन।

- (ख) एक अतिरिक्त एचएजी + स्तर के पद का सृजन जिससे ग्रेड की संख्या 2 हो जाएगी।
- (ग) एचएजी स्तर के दो अतिरिक्त पदों का सृजन जिससे ग्रेड की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी।
- (घ) एचएजी स्तर के 18 अतिरिक्त पदों का सृजन जिससे ग्रेड की संख्या 37 से बढ़कर 55 हो जाएगी।
- (ङ) जेएजी स्तर के 111 पदों में कटौती करके 90 करना।
- (च) एसटीएस स्तर के 198 पदों में कटौती करके 86 करना।
- (छ) 21 जेटीएस स्तर के पदों का सृजन जिससे ग्रेड की संख्या 67 से बढ़कर 88 हो जाएगी।
- (ज) 46 पदों को आरक्षित रखा जाएगा।
- (झ) सेवा की कुल 420 की संख्या में कटौती करके 376 करना।

2. आईपी एंड टी एफएस ग्रेड 'क' की संशोधित संवर्ग संरचना निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	ग्रेड	पे मैट्रिक्स में स्तर	वर्तमान संख्या	संशोधित संख्या
1.	शीर्ष-मान	17	0	1
2.	एचएजी +	16	1	2
3.	एचएजी	15	6	8
4.	एसएजी	14	37	55
5.	जेएजी/एनएफएसजी	12/13	111	90
6.	एसटीएस	11	198	86
7.	जेटीएस	10	67	88
8.	कुल ड्यूटी पद		420	330
	आरक्षित	10	00	46
कुल संख्या			420	376

3. इसे वित्त सलाहकार (दूरसंचार) के साथ परामर्श करते हुए दिनांक 1.11.2016 के डायरी संख्या 5212/एम/एफ-2016 के अंतर्गत जारी किया जाता है।

सौरभ के. तिवारी, उप महानिदेशक (ई एंड एफ)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
New Delhi, the 8th November 2016

No.A.12025/3/2009-Admn.I (LD)—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Brajesh Kumar Singh to the post of Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) in Level 12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission [Pre-revised Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 7600/-] in the Official Languages Wing of Legislative Department, Ministry of Law & Justice with effect from the forenoon of 08th November, 2016.

2. Shri Brajesh Kumar Singh will be on probation for a period of one year with effect from 08th November, 2016.

B M SHARMA, Deputy Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)
New Delhi, the 9th November 2016

No. A-19011/16/2016-HR-II—In supersession of this Department's Notification of even number dated 02.11.2016 and in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/02/2016-EO (SM.I) dated 23.09.2016, the President is pleased to appoint Ms. Meenakshi Gupta, IA&AS (1984) as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Chemicals and Fertilizers w.e.f. 01.11.2016 (FN) vice Shri Gajendra Bhujabal, IES (1981), retired.

PUMZALAL PULAMTE, Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
New Delhi-110003, the 15th November 2016

No. 3-8/2010-RT—It has been decided with the approval of the competent authority, to rename the Eastern Forest Rangers College, Kurseong as Central Academy of Forest Education, Kurseong.

SUNEESH BUXY, Dy. Inspector General of Forests (RT)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi-110 011, the 16th November 2016

No.A.12025/122/2010-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amit Kumar to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 15th June, 2011 until further orders. Dr. Amit Kumar is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

D. D. MAHESHWARI, Under Secretary

New Delhi-110108, the 15th November 2016

No.A.12025/178/2014-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dhananjaya Sabat, to the post of Assistant Professor of Orthopedics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.01.2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
(AYUSH)

New Delhi, the 17th November 2016

No. A. 31012/02/2016-E.I—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to confirm in service of following Medical officers/Research Officers (Ayurveda) with effect from the date mentioned against their names:-

S. No.	Name	Date of completion of probation	Date of confirmation
1	Dr. Mrityunjay Prasad Tiwari	04.11.2015	05.11.2015

S. No.	Name	Date of completion of probation	Date of confirmation
2	Dr. Niraj Kumar Gupta	13.11.2015	14.11.2015
3	Dr. Asmita Singh	06.11.2015	07.11.2015
4	Dr. Puspa Rai	23.11.2015	24.11.2015
5	Dr. Trivendra Kumar Sharma	13.11.2015	14.11.2015
6	Dr. Vinitha TV	02.11.2015	03.11.2015
7	Dr. Seema Verma	06.11.2015	07.11.2015
8	Dr. Pravin Kumar Dhote	21.05.2016	22.05.2016
9	Dr. Babu Lal Meena	19.11.2015	20.11.2015
10	Dr. Digvijay Singh	17.11.2015	18.11.2015
11	Dr. Jina M S	08.12.2015	09.12.2015
12	Dr. Rakesh Kumar Meena	11.03.2016	12.03.2016
13	Dr. Ranvijay Singh	06.11.2015	07.11.2015
14	Dr. Ashish Kumar Jaisawal	11.12.2015	12.12.2015

YASH VEER SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 16th November 2016

No. A-11011/3/2014-Estt.—Consequent upon her appointment as Director General, NIFT, Department of Textiles on lateral shift basis vide DoP&T's Order No. 33/13/2016-EO(SM-I) dated 26th October, 2016, Mrs. Sarada G. Muraleedharan, IAS (KL: 1990) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj w.e.f. the forenoon of 04th November, 2016.

S. K. MANN, Under Secretary

New Delhi, the 16th November 2016

No. A-19039/1/2016-Estt.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS vide DoP&T's Order No. 5/7/2016-CS.I(U) dated 28th September, 2016, the President is pleased to appoint Shri Surender Kumar Mann as Under Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Panchayati Raj in the Pay Band (PB-3) Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 30th September, 2016 (A/N).

N. P. TOPPO, Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)]

New Delhi, the 1st November 2016

No. A-19011/01/2016-Estt.—On attaining the age of superannuation, Dr. Vinod Aggarwal, IAS (JH:1980), Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, has superannuated from Government service w.e.f. 31.10.2016 (AN).

PRADEEP PUROHIT, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 10th November 2016

ORDER

Sub.: First Cadre Review of Indian Posts & Telecommunications Accounts and Finance Service Gr. "A" (IP&T AFS Gr. "A").

No. 03-09/2015-SEA-I—The President is pleased to sanction the creation/reduction of the following posts in different grades of IP&T AFS:—

- (a) Creation of the post of Controller General of Communication Accounts (CGCA) at Apex level

- (b) Creation of one additional HAG + level post taking the grade strength to 2
- (c) Creation of two additional HAG level posts taking the grade strength from 6 to 8
- (d) Creation of 18 additional SAG level posts taking the grade strength from 37 to 55.
- (e) Reduction in JAG level posts from 111 to 90.
- (f) Reduction in STS level posts 198 to 86.
- (g) Creation of 21 JTS level posts taking the grade strength from 67 to 88.
- (h) 46 Posts to be operated as Reserves.
- (i) Reduction of total strength of the Service from 420 to 376.

2. The revised cadre structure of IP&T AFS Gr. "A" is as below:—

S.No.	Grade	Level in pay Matrix	Existing Strength	Revised Strength
1.	Apex Scale	17	0	1
2.	HAG+	16	1	2
3.	HAG	15	6	8
4.	SAG	14	37	55
5.	JAG/NFSG	12/13	111	90
6.	STS	11	198	86
7.	JTS	10	67	88
Total Duty Posts			420	330
8.	Reserve	10	00	46
Total Strength			420	376

3. This issues in consultation with Finance Advice (Telecom) vide their diary No. 5212/M/F-2016 dated 01.11.2016.

SAURABH K. TIWARI, DDG (E&F)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in